

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 97]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 22 फरवरी 2014—फाल्गुन 3, शक 1935

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2014

क्र. एफ-1-2-2014-बाईस-पं.-2.—मध्यप्रदेश पंचायतराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 10 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (3) में वर्णित जिले के लिए अनुसूची के कॉलम (2) वर्णित जिला पंचायत स्थापित करती है :—

क्रमांक (1)	जिला पंचायत (2)	जिले का नाम (3)
1	जिला पंचायत आगर-मालवा	जिला-आगर-मालवा

No. F-1-2-2014-XXII-P-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 10 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994), the State Government hereby establishes the Zila Panchayat mentioned in column (2) of the Schedule below for the District mentioned in column (3) of the said Schedule, namely :—

No. (1)	Zila Panchayat (2)	Name of District (3)
1	Zila Panchayat Agar-Malwa	District-Agar-Malwa

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश कुमार, अपर सचिव.